



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 994 राँची, शुक्रवार,

29 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 नवम्बर, 2019

संख्या- 5/आरोप-1-33/2019 का० 9291-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-847/03, गृह जिला-गिरिडीह), तत्कालीन निदेशक प्रशासन, गृह (कारा) निदेशालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध अधिसूचित (निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सिमडेगा) पद पर योगदान नहीं करने, मनमानापन रवैया अपनाते हुए बार-बार उपार्जित अवकाश विस्तार करने हेतु अनुरोध करते हुए बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित

होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
